

28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

2. उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3)में , मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा -:

“बशर्ते कि 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में, उप मद (च) में निर्दिष्ट सेवा विवरण पर एकीकृत कर, कॉलम (4) में निर्दिष्ट दर के बावजूद , 5% की दर से लगोगा।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2021-टीओ (टीआरयू-1) सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 02/2021-एकीकृत कर (दर), दिनांक 2 जून, 2021, जिसे सा.का.नि. 378(अ), दिनांक 2 जून, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

No. 04/2021- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and subsection (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, subsection (1) of Section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 08/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely, -

“*Provided that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the integrated tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 5 per cent.*”.

[F. No. CBIC-190354/63/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 8/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 02/2021- Integrated Tax (Rate), the 2nd June, 2021 *vide* number G.S.R. 378(E), dated the 2nd June, 2021.